

आपके लिए विटामिन्स की अपग्रेडेड खुराक



मल्टीविटामिन


विटामिन D

विटामिन B12

विटामिन C

पेश है sublispray™ तकनीक युक्त **वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट**,
विटामिन लेने का असरदार तरीका

डॉक्टर द्वारा विकसित



असरदार परिणामों के
लिए तेज़ खपत



इंडस्ट्री में पहली बार



बेहतरीन स्वाद



डॉक्टर द्वारा विकसित

वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट क्या है?

वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट आपके खुराक लेने के परंपरागत तरीके को आधुनिक, तेज़ी के साथ खपत होने वाले तरीके में बदलने में मदद करता है। यह एक नया, तेज़ और प्रभावी सब्लिंगुअल स्प्रे है जो विटामिन की खुराक लेने के विशेष तरीके में सुधार करता है और बेहतर परिणामों के लिए तेज़ खपत प्रदान करता है।

खुराक लेने के सब्लिंगुअल तरीके के फ़ायदे:

सब्लिंगुअल रूट फ़र्स्ट-पास मेटाबॉलिज्म को बायपास करता है और इसलिए सिस्टम के सर्कुलेशन में विटामिन की खपत को बढ़ावा देता है। विटामिन नसों से सीधा सिस्टम के सर्कुलेशन में पहुँचते हैं और बेहतर परिणामों के लिए तेज़ खपत प्रदान करते हैं।

आख़िर वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट ही क्यों?

अधिकतर रोग शरीर के एक या एक से अधिक सिस्टम/अंगों के सही से काम न करने के परिणाम होते हैं। अधिकतर मामलों में, यह ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है।

अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का राज़ अंगों तक पहुँचने वाले पोषक तत्वों की उचित मात्रा से सीधे तौर पर जुड़ा है।

खास sublispray™ तकनीक वाला वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट तेज़ी से खपत को बढ़ाता है और ज़रूरी अंगों को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित करता है।

वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट ही क्यों:

- 90% तक पोषक तत्वों की खपत होती है
- असरदार परिणामों के लिए मुँह से तेज़ खपत
- उन लोगों के लिए खास उपयोगी जिन्हें निगलने में परेशानी होती है

वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट इस्तेमाल करने के लिए निर्देश:

- इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से हिलाएं
- सीधे जीभ के नीचे स्प्रे करें



सब्लिंगुअल स्प्रे इस समय सबसे
अधिक ज़रूरी क्यों है?




गोलियों के आकार
की वजह से
84%
लोग दवा लेने से
हिचकिचाते हैं



40%
लोगों को गोलियां
निगलने में परेशानी
होती है

खुराक लेने के दुसरे तरीकों के मुकाबले सब्लिंगुअल स्प्रे से ज़रूरी पोषक तत्वों की 90% खपत



स्रोत: फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, 48वां एडिशन, पेज 1331



वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट विटामिन C:

सेल्स को फ्री रेडिकल के कारण होने वाले नुकसान से बचाकर एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है

इम्युनिटी बनाए रखने में मदद करता है और सर्दी और जुकाम जैसे इन्फेक्शन से शरीर को सुरक्षित रखता है

त्वचा, नसों, हड्डियों और कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है

ICMR* के अनुसार एक वयस्क को रोज़ाना 80 mg विटामिन C लेने की सलाह दी जाती है

रोज़ाना केवल 3 बार स्प्रे



वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट विटामिन B12:

यह शरीर की भोजन को सेल्यूलर एनर्जी में बदलने की क्षमता को बढ़ाता है और स्वस्थ एनर्जी लेवल बनाए रखता है

तंत्रिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है

रेड ब्लड सेल के निर्माण को बढ़ावा देता है

ICMR* के अनुसार एक वयस्क को रोज़ाना 2.2 mcg विटामिन B12 लेने की सलाह दी जाती है

रोज़ाना केवल 1 बार स्प्रे



वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट विटामिन D:

इम्यून सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है
शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की खपत और नियंत्रण
में सहायता करता है और हड्डियों को मजबूती देता है
सूजन को कम करता है

ICMR* के अनुसार एक वयस्क को रोज़ाना 600 IU
विटामिन D लेने की सलाह दी जाती है

रोज़ाना केवल 1 बार स्प्रे



वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्विट मल्टी-विटामिन:

आहार और शरीर की ज़रूरत के बीच के पोषक तत्वों की
कमी को दूर करने में मदद करता है
कुल मिलाकर स्वास्थ्य में सुधार करता है
विकास और शरीर के रोजाना रखरखाव में मदद करता है
बढ़े हुए एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है

रोज़ाना केवल 3 बार स्प्रे

*इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च

निगलने की क्या ज़रूरत है जब आप सब्लि-स्प्रे कर सकते हैं?



मल्टीविटामिन

विटामिन D

विटामिन B12

विटामिन C



**असरदार परिणामों के
लिए तेज़ खपत**



इंडस्ट्री में पहली बार



बेहतरीन स्वाद



डॉक्टर द्वारा विकसित

